

मॉडल पेपर (2023–24)

कक्षा–11

विषय—कृषि वनस्पति विज्ञान

(कृषि भाग–1)

समय: 3 घंटा 15 मिनट

पूर्णांक 50

नोट: प्रारम्भ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने हेतु निर्धारित है।
नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

- बहुविकल्पीय प्रश्न — 01
- निश्चित उत्तरीय प्रश्न — 02 —06 तक
- अति लघुउत्तरीय प्रश्न — 07—11 तक
- लघु उत्तरीय प्रश्न — 12—14 तक
- विस्तृत उत्तरीय प्रश्न — 15—17 तक

प्रश्न –01 बहुविकल्पीय प्रश्न—

- (क) चुकन्दर की जड़ों में पाया जाता हैं — 1
(i) ग्लूकोज (ii) सुक्रोज (iii) माल्टोज (iv) लैकटोज
- (ख) बिन्दु स्रावण होता है — 1
(i) वातरन्ध्रों द्वारा (ii) पर्णरन्ध्रों द्वारा
(iii) उपचर्म द्वारा (iv) जलरन्ध्रों द्वारा
- (ग) सम्बहन वण्डल (Vascular Bundle) के भाग है — 1
(i) जाइलम (ii) फ्लोएम (iii) कैम्बियम (iv) सभी
- (घ) कवकों में भोजन प्रायः संचित होता हैं — 1
(i) ग्लाइकोजन (ii) प्रोटीन (iii) वसा (iv) शर्करा
- (ङ) चावल का दाना फल है — 1
(i) कैप्सूल (ii) एकीन (iii) अष्टिफल (iv) कैरिआप्सिस

निश्चित उत्तरीय प्रश्न

- प्रश्न–02 मूलरोम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? 1
- प्रश्न–03 केले के फल में बीज क्यों नहीं पाया जाता है ? 1
- प्रश्न–04 ऊर्जा प्राप्ति के लिए मुख्य किया कौन–सी है ? 1
- प्रश्न–05 सत्य फल की परिभाषा लिखिए। 1
- प्रश्न–06 उपचर्म (Cuticle) किस पदार्थ का बना होता है ? 1

अति लघु उत्तरीय प्रश्न—

प्रश्न—07 कोशिका विभाजन में इंटरफेज के महत्व का वर्णन कीजिए।	2
प्रश्न—08 क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना तथा स्ट्रोमा में विभेद कीजिए।	2
प्रश्न—09 रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के नाम लिखिए।	2
प्रश्न—10 शिरा विन्यास से क्या समझते हैं?	2
प्रश्न—11 श्वसन गुणांक को परिभाषित कीजिए।	2

लघु उत्तरीय प्रश्न —

प्रश्न—12 जैव उर्वरक की उपयोगिता का उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए।	4
प्रश्न—13 द्विवीज पत्री तने के अनुप्रस्थकाट का नामांकित चित्र बनाइये तथा विस्तृत वर्णन कीजिए।	4
प्रश्न—14 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए? 4	

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न— **6 अंक**

प्रश्न—15 वाष्पोत्सर्जन क्या हैं? स्टोमैटा द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन क्रिया विधि का वर्णन कीजिए तथा वाष्पोत्सर्जन के महत्व का संक्षेप में उल्लेख कीजिए?

अथवा

किन्हीं तीन पर टिप्पणी लिखिए—

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| (i) जीव द्रव्य कुंचन | (ii) खाद्य पदार्थों का स्थानान्तरण |
| (iii) हिल अभिक्रिया | (iv) माइटोकांड्रिया का सचित्र वर्णन |

प्रश्न—16 कुकुरविटेसी कुल के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए तथा इसके पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख बनाइये। **6 अंक**

अथवा

कोशिकीय श्वसन को प्रभावित करने वाले बाह्य तथा आन्तरिक कारकों का वर्णन कीजिए।

प्रश्न—17 द्विनिषेचन क्रिया से आप क्या समझते हैं? चित्र की सहायता से क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। **6 अंक**

अथवा

नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्या समझते हैं? इसके विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए।